

**प्रेस नोट-दिनांक 05-10-2021**

**दुल्हा खुर्द तिराहे से अवैध 3.068 किग्रा चाँदी के साथ एक शातिर चोर को मोहाना पुलिस ने किया गया गिरफ्तार, भेजा जेल**

डॉ यशवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश पर एवं श्री सुरेश चन्द रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश पर व श्री प्रदीप कुमार यादव क्षेत्राधिकारी सदर सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री जयप्रकाश दूबे थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर के कुशल नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 05.10.2021 को दुल्हा खुर्द तिराहे पर मोहाना पुलिस बल द्वारा रात्रि गश्त के दौरान एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। जो अनाधिकृत रूप से चाँदी का कारोबार करता था। जिसके पास से 3.068 किग्रा चाँदी बरामद किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0-205/2021 धारा 41,411,414 भा0द0वि0 पंजीकृत कर अभियुक्त को जेल भेजा गया।

**अभियुक्त का विवरण**

**01- गोरख प्रसाद पुत्र मिश्रीलाल यादव साकिन रामनगर थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर**

**बरामदगी का विवरण:-**

1. चाँदी जिसका कुल वजन 3.068 किग्रा
2. एक अदद मोटर साइकिल

**बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-**

1. थानाध्यक्ष श्री जय प्रकाश दुबे थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर
2. उ0नि0 इशाशुं श्रीवास्तव चौकी प्रभारी ककरहवा थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर
3. का0 प्रमोद कुमार चौकी ककरहवा थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर
4. का0 सुजीत सरोज चौकी ककरहवा थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर

**प्रेस नोट-दिनांक 05-10-2021**

**महिला सशक्तिकरण के क्रम में महिला बीट पुलिस अधिकारी व महिला हेल्प डेस्क अधिकारी द्वारा स्कूलों में जाकर छात्राओं को किया गया जागरूक**

डॉ0 यशवीर सिंह पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा "महिला सशक्तिकरण व महिलाओं के शिक्षा, सुरक्षा एवं जागरूकता अभियान" के संबंध में दिए गए निर्देश के क्रम में व श्री सुरेश चंद्र रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व श्री रमेश चंद्र पांडे क्षेत्राधिकारी इटवा के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 05.10.2021 को वेद प्रकाश श्रीवास्तव प्रभारी निरीक्षक थाना गोलहौरा के निर्देशन में \* महिला बीट पुलिस अधिकारी मु.आ.उर्मिला यादव व का0 चंद्रकला मौर्या द्वारा थाना क्षेत्र के डी सी मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोलहौरा में जाकर छात्राओं को शिक्षा, सुरक्षा के संबंध में जागरूक किया गया तथा शिक्षा के द्वारा कैसे समाज में अपनी शोहरत बना सकती हैं, से अवगत कराया गया तथा महिलाओं, बच्चों के साथ महिला सम्बन्धी अपराध व महिला सुरक्षा के सम्बन्ध में भी जागरूक किया गया तथा छात्राओं को महिला सम्बन्धी अपराध पर अंकुश लगाने हेतु जारी हेल्प लाइन \*1090 वुमेन पावर लाइन, 181 महिला हेल्प लाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन, 112 पुलिस हेल्प लाइन, 1098 चाईल्ड लाइन के सम्बन्ध में जानकारी दी गई।

## प्रेस नोट-दिनांक 05-10-2021

यातायात नियमों का उल्लंघन कर फर्टा भरने वाले वाहनों/व्यक्तियों का ई-चालान व सीज करने की कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी यातायात पुलिस/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है, इसी क्रम में आज दिनांक:-05-10-2021 को जनपदीय पुलिस एवं यातायात पुलिस बल द्वारा एम0वी0 एक्ट के अंतर्गत 657 वाहनों को चेक किया गया तथा कुल 89 वाहनों का चालान तथा 02 वाहन को सीज कर ₹ 1,19,500/-शमन शुल्क वसूल किया गया।

## प्रेस नोट-दिनांक 05-10-2021

**95 शीशी अवैध नेपाली शराब के साथ 02 नफ़र अभियुक्त को मोहाना पुलिस व आबकारी की संयुक्त टीम ने दबोचा-**

डॉ श्री यशवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश पर एवं श्री सुरेश चन्द रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश पर व श्री प्रदीप कुमार यादव, क्षेत्राधिकारी सदर सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री जय प्रकाश दूबे, थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 05.10.2021 को थाना मोहाना पुलिस व आबकारी की टीम द्वारा 02 नफर अभियुक्त को दूल्हा खुर्द से गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध क्रमश:-

01- मु0अ0सं0 -206/2021 धारा 63 आबकारी अधिनियम बनाम प्रमोद पुत्र नाजिर सा0 बसालतपुर थाना मोहाना जिला सिद्धार्थ नगर पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

02- मु0अ0सं0 -207/2021 धारा 63 आबकारी अधिनियम बनाम भिन्नी पत्नी रामदास सा0 आसिधवा थाना मोहाना जनपद सि0नगर पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी

**बरामदगी का विवरण:-** 95 सीसी नेपाली शराब बरामद

**गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-**

1. आबकारी निरीक्षक मुकेश कुमार शर्मा क्षेत्र प्रथम नौगढ़
2. उ0नि0 राजेश कुमार थाना मोहाना जनपद सि0नगर
3. हेड कांस्टेबल आबकारी जय नारायण सिंह
4. का0 आबकारी दिनेश कुमार यादव
5. का0 आबकारी राजू कुमार
6. का0 अभिमन्यु यादव थाना मोहाना जनपद सि0नगर
7. म0का0 खुशबू सिंह थाना मोहाना जनपद सि0नगर